


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 1968/भाद्र 28, 1890
No. 342] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 1968/BHADRA 28, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September 1968

S.O. 3393.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

2. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Seventy First Amendment) Rules, 1968.

(2) They shall come into force at once

3. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) under the heading "Ministry of Finance", under sub-heading "B. Department of Expenditure", for entry 14, the following entry shall be substituted, namely:—

"14. Bureau of Public Enterprises, including Industrial Management Pool."
and

(b) under the heading "Ministry of Home Affairs", entry 52 shall be omitted.

ZAKIR HUSAIN,
President.
16-9-1968.

[No. 74/7/CF-68.]
RAJESHWAR PRASAD, Jt. Secy.

(1045)

